

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)

कार्यक्रम प्रतिवेदन – 2023

// प्रतिवेदन //

“Preparation for Assessment and Accreditation” for Accredited/ Non-Accredited Colleges/Universities”)

—0—

दिनांक 18 एवं 19 मई, 2023 को ऑनलाईन नैक जागरूकता पर मूल्यांकन और प्रत्यायन की तैयारी हेतु अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा **Preparation for Assessment and Accreditation” for Accredited/ Non-Accredited Colleges/Universities** विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रथम दिवस कार्यशाला के प्रारंभ में कार्यक्रम समन्वयक प्रो. एच.एस. होता, द्वारा स्वागत भाषण दिया गया तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य ए.डी.एन. वाजपेयी द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन दिया गया।

प्रथम सत्र में प्रो. ए.एस. रनदिवे, गुरुघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से नैक के मानदंड 6 एवं 7 के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया।

द्वितीय सत्र में डॉ. पुष्कर दुबे, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से नैक के मानदंड 1 एवं 2 के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया।

उक्त दोनों तकनीकी सत्र समापन पश्चात् कार्यक्रम आयोजन सचिव डॉ. सुमोना भट्टाचार्य द्वारा आभासी माध्यम से चल रहे कार्यशाला में सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

द्वितीय दिवस आयोजन सचिव डॉ. सुमोना भट्टाचार्य ने विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़े नैक संयोजक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समन्वयकों, प्राध्यापकों एवं ऑनलाईन माध्यम से जुड़े समस्त लोगों का स्वागत-अभिनंदन किया।

तदोपरान्त व्याख्यान के तृतीय सत्र का शुभारंभ किया गया। उक्त सत्र में बतौर वक्ता के रूप में सम्मिलित प्रो. बी.एस. ठाकुर, गणित विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने कार्यशाला में ने नैक प्रत्यायन के मानदण्ड- 04 के बारे में प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से ही सम्मिलित वक्ता डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नॉलॉजी विभाग ने नैक के संदर्भ में मानदण्ड- 05 के बारे में प्रजेंटेशन के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी।

कार्यशाला के अंतिम सत्र अर्थात् पांचवें सत्र में बसंती देवी महाविद्यालय, कलकत्ता से बतौर वक्ता सम्मिलित डॉ. इंद्रिला गुहा, प्राचार्य ने नैक प्रत्यायन के तृतीय मानदण्ड के बारे में अपने वक्तव्य एवं प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किये।

समापन सत्र में कार्यक्रम समन्वयक डॉ. एच.एस. होता ने विभिन्न वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नैक के 07 मानदण्डों के प्रस्तुतीकरण की प्रशंसा की तथा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

तत्पश्चात् कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रो. बी.जी. सिंह, माननीय कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर ने नैक के महत्व पर प्रकाश डालते हुये नैक की तैयारी, अवधि एवं रिपोर्टिंग संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुये विस्तृत जानकारी प्रदान की।

उक्त कार्यशाला में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के समस्त प्राध्यापकगण, डॉ. एच.एस. होता, डॉ. पूजा पाण्डेय, प्रो. गौरव साहू, डॉ. कलाधर, डॉ. सीमा बेलोरकर, डॉ. लतिका भाटिया, डॉ. स्वाति रोज टोप्पो, प्रो. हामिद अब्दुल्लाह, प्रो. हैरी जॉर्ज, प्रो. यशवंत पटेल, प्रो. सौमित्र तिवारी, प्रो. रेवा कुलश्रेष्ठ, प्रो. जीतेन्द्र गुप्ता, डॉ. रश्मि गुप्ता, डॉ. तरुण धर दीवान, श्री हर्ष पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र मेहता, सुश्री सुषमा तिवारी, श्री सौरव पाण्डेय तथा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के विभिन्न प्राध्यापकगण, नैक एवं आईक्यूएसी समन्वयक, छात्र-छात्राएं इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्राध्यापकगण एवं बुद्धिजीवी प्रमुख रूप से कार्यशाला में सम्मिलित रहे।

प्रथम दिवस स्क्रीनशॉट फोटो

Abhay Ranadive is presenting

Revised_University_Manual_29_01_2023_5_4_2023.pdf

File Description

- Provide the link for additional information
- Upload any additional information

6.4.2 Q.n.M *Funds / Grants received from government bodies/non government and philanthropists during the last five years for development and maintenance of infrastructure (not covered under Criteria III and V)* 12

6.4.2.1: Total Grants received from government and non-government bodies and philanthropists for development and maintenance of infrastructure (not covered under Criteria III and V) year-wise during the last five years (INR in Lakhs)

| Year | INR in Lakhs |
|------|--------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Upload the specific document as per description given below

- Institutional data in the form of Annual audited

3:44 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."

Dr. Pankaj Dubey is presenting

Table 1: Distribution of Metrics and KIs across Criteria

| Type of IIRs | Universities | Autonomous Colleges | | Affiliated Constituent Colleges | |
|---------------------------|--------------|---------------------|----|---------------------------------|----|
| | | UG | PG | UG | PG |
| Criteria | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Key Indicators (KIs) | 34 | 34 | 31 | 32 | |
| Qualitative Metrics (QM) | 36 | 35 | 35 | 36 | |
| Quantitative Metrics (QM) | 79 | 72 | 58 | 60 | |
| Total Metrics (QM + QM) | 115 | 107 | 93 | 96 | |

4:59 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."

Dr. Pankaj Dubey is presenting

Institutional Level Information

1.2.1 *Percentage of new courses introduced of the total number of courses across all programs offered during the last five years*

- Courses were introduced within the last five years
- Minutes of relevant Academic Council/BOS meeting

1.2.2 *Percentage of Programmes in which Choice Based Credit System (CBCS) elective course system has been implemented (Data for the latest completed academic year)*

- Number of Programmes in which CBCS/ Elective course system implemented
- Minutes of relevant Academic Council/BOS meeting

1.1.3 *Institution integrates crosscutting issues relevant to Professional Ethics, Gender, Human Values, Environment and Sustainability into the Curriculum*

- QLM (500 words)
- List of Program and Courses having Cross Cutting Issues

5:07 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."

Abhay Ranadive is presenting

Revised University Manual 2013-2015, 4-2021.pdf

| No. | Criteria | Weightage |
|-------|--|-----------|
| 6.2.1 | The institutional perspective plan is effectively deployed and functioning of the Institutional bodies are effective and efficient as visible from policies, administrative set-up, appointment, service rules, procedures etc. | 5 |
| Q.M | File Description <ul style="list-style-type: none"> Strategic Plan and deployment documents on the website Provide the link for additional information Upload any additional information | |
| 6.2.2 | Institution Implements e-governance in its operations | 5 |
| Q.M | 6.2.2.1 e-governance is implemented covering the following areas of operations: <ol style="list-style-type: none"> Administration including complaint management Finance and Accounts Student Admission and Support Examinations | |

NAAC for Quality and Excellence in Higher Education
(Simplified University Manual) (Draft version)

4:30 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."

Dr. Pushkar Dubey is presenting

Distribution of Metrics and KIs across Criteria

| Type of HEIs | University |
|----------------------------|------------|
| Criteria | 7 |
| Key Indicators (KIs) | 34 |
| Qualitative Metrics (QIM) | 36 |
| Quantitative Metrics (QnM) | 79 |
| Total Metrics (QIM + QnM) | 115 |

4:44 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."

Dr. Pushkar Dubey is presenting

Table 1: Distribution of Metrics and KIs across Criteria

| Type of HEIs | Universities | Autonomous Colleges | Affiliated Constituent Colleges | |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|----|
| | | | UG | PG |
| Criteria | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Key Indicators (KIs) | 34 | 34 | 31 | 32 |
| Qualitative Metrics (QIM) | 36 | 35 | 35 | 36 |
| Quantitative Metrics (QnM) | 79 | 72 | 58 | 60 |
| Total Metrics (QIM + QnM) | 115 | 107 | 93 | 96 |

4:59 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."

Abhay Ranadive is presenting

Revised University Manual 2013-2015, 4-2021.pdf

| No. | Criteria | Weightage |
|-------|--|-----------|
| 6.2.1 | The institutional perspective plan is effectively deployed and functioning of the Institutional bodies are effective and efficient as visible from policies, administrative set-up, appointment, service rules, procedures etc. | 5 |
| Q.M | File Description <ul style="list-style-type: none"> Strategic Plan and deployment documents on the website Provide the link for additional information Upload any additional information | |
| 6.2.2 | Institution Implements e-governance in its operations | 5 |
| Q.M | 6.2.2.1 e-governance is implemented covering the following areas of operations: <ol style="list-style-type: none"> Administration including complaint management Finance and Accounts Student Admission and Support Examinations | |

NAAC for Quality and Excellence in Higher Education
(Simplified University Manual) (Draft version)

4:30 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."

Dr. Pushkar Dubey is presenting

Institutional Level Information

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 1.2.1 Percentage of new courses introduced of the total number of courses across all programs offered during the last five years | <ul style="list-style-type: none"> Courses were introduced within the last five years Minutes of relevant Academic Council/BOS meeting | Data Template BOS/AC Meeting |
| 1.2.2 Percentage of Programmes in which Choice Based Credit System (CBCS) elective course system has been implemented (Data for the latest completed academic year) | <ul style="list-style-type: none"> Number of Programmes in which CBCS/ Elective course system implemented Minutes of relevant Academic Council/BOS meeting | Data Template BOS/AC Meeting |
| 1.1.3 Institution integrates crosscutting issues relevant to Professional Ethics, Gender, Human Values, Environment and Sustainability into the Curriculum | <ul style="list-style-type: none"> QLM (500 words) List of Program and Courses having Cross Cutting Issues | Writeup Attachment |

5:07 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."

द्वितीय दिवस स्क्रीनशॉट फोटो



Workshop on NAAC Quality Indicator Framework

Criteria-V

Student Support & Progression

Keshav Kant Sahu
 School of Studies in Biotechnology
 Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur 492 010
 Email: skeshavkant@gmail.com

4:17 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."

Balwant Thakur is presenting

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Inspection Expenses The Fee for inspection by University JUGC/Dept. of Education | 200944 | Furniture Repair 1 Purchase of Raw Material | 99030 |
| Internet System (V.Set) Rent for wifi charges payable to BSNL | 67149 | Games and Sports | 147083 |
| Interview Exp. For Publication of Advertisement, Holding of Interview at various places and payment of TA to Candidates | 146731 | Gas/other Exp. | 68322 |

Seth G.B. Puri College
 Nawalgarh - 335042

JITENDRA VINOD VERMA
 CHAIRMAN/CHIEF COORDINATOR
 M. 76- 230349

Satyendra Singh

4:03 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."

Dr.Indrila Guha is presenting

Key Indicator 3.2

Innovation Ecosystem (Weightage: 15)

- 3.2.1. Institution has created an ecosystem for innovations and has initiatives for creation and transfer of knowledge (patents filed, published, incubation center facilities in the HEI to be considered) (Descriptive : within 500 words) (Weightage 10)
- 3.2.2 Number of workshops/seminars/conferences including on Research Methodology, Intellectual Property Rights (IPR) and entrepreneurship conducted during the last five years (Weightage 5)

| Benchmark | | | | |
|-----------|-------|-------|------|----|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| >=40 | 30-40 | 20-30 | 5-20 | <5 |

Dinesh Kaiwartya has left the meeting

5:52 PM | Online NAAC Awareness Workshop on "Preparation..."